

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 790]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 16, 2015/अग्रहायण 25, 1937

No. 790]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2015/AGRAHAYANA 25, 1937

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 977(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 7 मई, 2015 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 368 (अ), तारीख 1 मई, 2015 के हिन्दी पाठ में, पृष्ठ 12 पर, स्तंभ (5) के अधीन “श्रेणी – 5 (वरिष्ठ अनुवादक)” के पद से संबंधित प्रविष्टियों में “तीन वर्ष” के स्थान पर “पांच वर्ष” पढ़ा जाए।

[फा. सं. 1/1/2009-ओ.एल (एस)]

पूनम जुनेजा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 16th December, 2015

G.S.R. 977(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) number G.S.R. 368 (E), dated 1st May, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), dated 7th May, 2015, in the Hindi version, at page 12, in the entries under column (5) relating to the post of “Grade-5 (Senior Translator)” for “three years” read “five years”.

[F. No. 1/1/2009-OL(S)]

POONAM JUNEJA, Jt. Secy.

5280 GI/2015